

दावा प्रक्रिया के लिए व्यापक दिशानिर्देश

- कृपया सुनिश्चित करें कि दावे का फार्म पूरा भरा गया है, हस्ताक्षर करके **मूल प्रति जमा** की गई है।
- कृपया अपने दावे के संबंध में आगे पत्रव्यवहार के लिए कम से कम उपलब्ध कराएं। दो चालू मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी।
- दावा दस्तावेजों की संकेतात्मक सूची दावा फार्म में खंड-ड में दी गई है। कृपया सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेजों की मूल प्रति जमा की गई है, ताकि दावे पर आसानी से कार्यवाही की जा सके।
- मूल प्रतियां नहीं होने पर दावा संबंधी कार्यवाही में देर लगेगी।**
- कृपया बैंक खाता विवरण और एक निरस्त चैक जमा करें। बैंक खाते का ब्योरा दावा फार्म के खंड 'छ' में दिया जाना है। दावा भुगतान केवल ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर के जरिए किया जाता है।

उपरोक्त के अलावा, यदि दावा राशि 1 लाख रुपए से अधिक है, तब निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत होगी:

- कर्मचारी का पैन कार्ड

दावा दस्तावेज नीचे लिखे पते पर भेजे जाने हैं:-

रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस – दावा विभाग

जीवाईएस ग्लोबल, प्लॉट सं. ए३, ए४, ए५

सेक्टर-125, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301

अब, अपनी दावा स्थिति का एसएमएस द्वारा पता करें

ऑनलाइन: कृपया नीचे दिए लिंक पर जाकर अपनी क्लाइंट आईडी और पालिसी नंबर दर्ज करें

www.religarehealthinsurance.com/claim_search.php **Center/Claim Search/क्लाइंट आईडी और पालिसी नंबर दर्ज करें**

एसएमएस: बस अपनी दावा संदर्भ संख्या को संदेश फॉर्मेट **CLAIM <space> CLAIM NUMBER** में लिखकर 77158 77158 पर एसएमएस करें

उदाहरण: दावा संदर्भ संख्या 11223344 की दावा स्थिति पता करने के लिए, बस 77158 77158 पर CLAIM 11223344 एसएमएस करें।

दावा फार्म के साथ अपेक्षित प्रमुख दस्तावेजों का संक्षिप्त वर्णन

- इनडोर केस पेपर्स – यह दस्तावेज अस्पताल द्वारा दैनिक आधार पर तैयार किया जाता है, जिसमें रोजाना डाक्टर के नोट, नर्सों के नोट, मरीज की हालत का ब्योरा और मरीज के दाखिल किए जाने से छुट्टी तक मरीज की हालत का ब्योरा दर्ज किया जाता है।
- अस्पताल से छुट्टी का सारांश – अस्पताल में दाखिल होने का सारांश जिसमें दाखिल होने की तारीख, छुट्टी की तारीख, निदान, अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उपचार का ब्योरा तथा अस्पताल से छुट्टी के बाद के लिए सलाह शामिल होती है।
- भुगतान की रसीदें – अस्पताल के सभी बिलों, जांच रिपोर्टों और किसी अन्य प्रक्रिया के लिए अस्पताल के अधिकारियों को किए गए भुगतान की रसीदें।
- परामर्श कागजात – परामर्शदाता डाक्टर द्वारा दी गई लिखित पर्ची।
- एनईएफटी (नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) – हमें पालिसीधारक का निरस्त चैक और दावा फार्म के खंड-छ में अनिवार्य रूप से भरा जाने वाला संबद्ध ब्योरा चाहिए।**

आरटीजीएस / एनईएफटी द्वारा भुगतान के लिए नियम और शर्तें

- पालिसीधारक द्वारा अनिवार्य फार्म में दिया गया ब्योरा अंतिम माना जाएगा तथा रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उसमें दिए गए ब्योरे की मिलान जांच के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
- पालिसीधारक सहमति प्रदान करता है कि आरटीजीएस / एनईएफटी सुविधा पर आरटीजीएस / एनईएफटी शुल्क लग सकता है, जो पालिसीधारक के बैंक द्वारा वसूल किया जाएगा तथा पालिसीधारक द्वारा वहन किया जाएगा।
- दस्तावेजों या बैंक विवरण या अन्य कोई जानकारी प्रस्तुत किए जाने का किसी भी तरह, शब्द या रूप में यह अपिपाय, अभिव्यक्ति अथवा संकेत नहीं है कि कंपनी ने देयता स्वीकार कर ली है।
- मैं / हम आगे वचन देता हूँ / देती हूँ / देते हैं कि कोई भी अतिरिक्त राशि, चाहे रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा मांगी गई है अथवा नहीं, जो किसी भी कारण से तथा किसी भी समय मेरे खाते में जमा की गई है, रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से ऐसे क्रेडिट की ऐसी सूचना प्राप्त होने अथवा किसी अन्य स्रोत से पालिसीधारक को ऐसे क्रेडिट की जानकारी मिलने के 7 दिन के भीतर वापस कर दूंगा / दूंगी / देंगे।
- पालिसीधारक सहमति प्रदान करता है कि आरटीजीएस / एनईएफटी सुविधा के तहत, आरटीजीएस / एनईएफटी सुविधा संबंधी लागू विनियमों में परिवर्तन के कारण अथवा किसी भी अन्य कारण से, जिसमें रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से कोई चूक / निष्क्रियता / असफलता नहीं है अथवा रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नियंत्रण से परे किसी भी कारण से भुगतान के क्रेडिट के दिन पालिसीधारक की खाता संख्या में भुगतान नहीं होने की जोखिम नहीं होगी।

दावा फार्म – “ग्रुप केयर”

भाग क

1. बीमित द्वारा भरा जाना है।
2. यह फार्म जारी करने का अर्थ दावा स्वीकार करना कदापि नहीं है।
3. स्पष्ट अक्षरों में भरा जाए।

खंड क – मूल बीमाधारक का व्योरा

क) पालिसी सं :															
ख) एसएल सं./प्रमाणपत्र सं.:							ग) कंपनी/टीपीए आईडी सं.:								
घ) नाम: :	(उपनाम)						(प्रथम नाम)			(मध्य नाम)					
ङ) पता: :															
							शहर:								
राज्य :										पिन कोड:					
लैंडलाइन :	-						मोबाइल:								
ई-मेल :															

खंड ख – बीमा इतिहास का व्योरा

क) वर्तमान में किसी अन्य मेडिक्लेम/हेल्थ बीमा द्वारा कवर्ड :	<input type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं													
ख) अंतराल रहित पहला बीमा प्रारंभ होने की तिथि :	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>		(दिन–माह–वर्ष)												
ग) यदि हां, कंपनी का नाम :															
पालिसी नंबर :													बीमित रकम (रु.) :	<input type="text"/>	
घ) क्या अनुबंध प्रारंभ होने की तिथि से पिछले 4 वर्ष के भीतर कभी अस्पताल में भर्ती रहे हैं?	<input type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं													
• तारीख:	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>		(दिन–माह–वर्ष)												
• निदान:															
ङ) पहले किसी अन्य मेडिक्लेम/हेल्थ बीमा द्वारा कवर्ड :	<input type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं													
च) यदि हां, कंपनी का नाम :															

खंड ग – बीमित व्यक्ति का व्योरा

शीर्षक :	<input type="checkbox"/> श्री	<input type="checkbox"/> कु.													
क) नाम :															
	(उपनाम)			(प्रथम नाम)			(मध्य नाम)								
ख) लिंग :	<input type="checkbox"/> पुरुष	<input type="checkbox"/> महिला	ग) आयु :	<input type="text"/> / <input type="text"/>		(वर्ष–माह)	डी) जन्म तिथि :	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>							
ङ) मूल बीमाधारक से संबंध:	<input type="checkbox"/> स्वयं	<input type="checkbox"/> साथी	<input type="checkbox"/> बच्चा	<input type="checkbox"/> पिता	<input type="checkbox"/> माता										
	अन्य (कृपया स्पष्ट करें) _____														
च) व्यवसाय :	<input type="checkbox"/> सर्विस	<input type="checkbox"/> स्व.रोजगार	<input type="checkbox"/> गृहिणी	<input type="checkbox"/> सेवानिवृत्त	<input type="checkbox"/> विद्यार्थी	<input type="checkbox"/> अन्य (कृपया स्पष्ट करें) _____									
छ) पता : (यदि उपरोक्त से अलग है)															
	शहर:														
राज्य :													पिन कोड :	<input type="text"/>	
ज) लैंडलाइन :	-						मोबाइल:								
झ) ई-मेल :															

खंड घ – अस्पताल में भर्ती रहने का व्योरा

- क) अस्पताल का नाम जहां भर्ती किया गया : / / / / /
- ख) लिए गए कमरे का संवर्ग : दिन के समय देखभाल एक के लिए कमरा दो के लिए कमरा हर कमरे में 3 या ज्यादा बेड
- ग) अस्पताल में भर्ती का कारण : चोट बीमारी प्रसव
- घ) चोट/बीमारी पहली बार पता लगने/प्रसव की तिथि : / / (दिन–माह–वर्ष)
- ङ) भर्ती होने की तारीख : / / (दिन–माह–वर्ष)
- ज) छुट्टी की तारीख : / / (दिन–माह–वर्ष)
- झ) यदि चोट लगी है, कारण बताएँ : खुद मारी गई चोट सड़क दुर्घटना
- इ) यदि चिकित्सा कानूनी मामला : हां नहीं
- iii) एमएलसी रिपोर्ट एवं पुलिस एफआईआर संलग्न : हां नहीं
- च) भर्ती होने का समय : : (घंटे:मिनट)
- ज) छुट्टी होने का समय : : (घंटे:मिनट)
- प) पदार्थ दुरुपयोग/मदिरा पान : हां नहीं
- ii) पुलिस में रिपोर्ट : हां नहीं
- ज) चिकित्सा पद्धति : _____

खंड झ – दावे का व्योरा

के लिए किया गया दावा

लाभ/ऐच्छिक विस्तार	हां/नहीं	लाभ/ऐच्छिक विस्तार	हां/नहीं
अस्पताल का खर्चा	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	वैकल्पिक उपचार (आईपीडी आधार)	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
अस्पताल में भर्ती से पहले का खर्चा अस्पताल में भर्ती होने के बाद का खर्चा	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	प्रमुख निदान	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
अस्पताल में भर्ती से पहले का खर्चा अस्पताल में भर्ती होने के बाद का खर्चा लाभ	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	मनोचिकित्सा उपचार	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
घरेलू रोड ऐम्बुलेंस	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	रोगी देखभाल	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
प्रसूति व्यय – केवल प्रसव	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	टिकाऊ चिकित्सा उपकरण	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
प्रसूति व्यय व्यापक कवर	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	प्रसूति जटिलताएँ	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
प्रसूति व्यय – प्रसव	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	घर पर इलाज	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
प्रसव से पहले और प्रसव के बाद	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	भारत के बाहर कवर	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
नवजात शिशु	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	कार्पोरेट फ्लोटर	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
दानदाता व्यय	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	स्वास्थ्य जांच	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
ओपीडी उपचार	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	वैकल्पिक उपचार (ओपीडी आधार)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
घर पर भर्ती	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	एचआईवी कवर	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
दांत का उपचार	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	व्यापक एचआईवी कवर	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

क) दावा किए गए उपचार व्यय का व्योरा

(i) अस्पताल में भर्ती से पहले का खर्चा : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	(xiii) दांत का इलाज : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
(ii) अस्पताल में रहने का खर्चा : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	(xiv) वैकल्पिक उपचार (आईपीडी) : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
(iii) अस्पताल से छुट्टी के बाद का खर्चा: रु. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	(xv) प्रमुख निदान : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
(iv) स्वास्थ्य जांच लागत : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	(xvi) मनोचिकित्सा : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
(v) ऐम्बुलेंस प्रभार : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	(xvii) रोगी देखभाल : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
(vi) मातृत्व लाभ : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	(xviii) स्थायी चिकित्सा उपकरण : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
(vii) प्रसव से पहले खर्चा : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	(xix) प्रसव जटिलताएँ : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
(viii) प्रसव के बाद खर्चा : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	(xx) घर पर इलाज : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
(ix) नवजात शिशु व्यय : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	(xxi) भारत के बाहर कवर : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
(x) दानदाता व्यय : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	(xxii) कार्पोरेट फ्लोटर : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
(xi) ओपीडी उपचार : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	(xxiii) वैकल्पिक उपचार (ओपीडी आधार) : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
(xii) घर पर इलाज : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	(xxiv) एचआईवी कवर : रु. <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>

क) दावा किए गए उपचार व्यय का ब्योरा

(xxv) व्यापक एचआईवी कवर : रु.

(xxvi) अन्य (कोड) : रु.

कुल : रु.

ख) घर पर इलाज हेतु दावा : हां नहीं
(यदि हां, ब्योरा संलग्न करें)

ग) दावा किए गए एकमुश्त / नकद लाभ का विवरण:

(i) अस्पताल दैनिक कैश : रु.

(ii) सर्जिकल कैश : रु.

(iii) गंभीर बीमारी लाभ : रु.

(iv) स्वास्थ्यलाभ : रु.

(v) अस्पताल में भर्ती होने से पहले / बाद में एकमुश्त लाभ : रु.

(vi) रोगी देखभाल : रु.

(vii) अन्य : रु.

कुल : रु.

घ) प्रस्तुत किए गए दावा दस्तावेज – जांचसूची

(i) दावा फार्म पर सही ढंग से हस्ताक्षर किए गए हैं : <input type="checkbox"/>	(vii) फार्मसी बिल : <input type="checkbox"/>
(ii) दावा सूचना की प्रति, यदि कोई : <input type="checkbox"/>	(viii) आपरेशन थियेटर नोट्स : <input type="checkbox"/>
(iii) अस्पताल का मेन बिल : <input type="checkbox"/>	(ix) ईसीजी : <input type="checkbox"/>
(iv) अस्पताल ब्रेक–अप बिल : <input type="checkbox"/>	(x) डाक्टर का जांच हेतु अनुरोध : <input type="checkbox"/>
(v) अस्पताल बिल भुगतान रसीद : <input type="checkbox"/>	(xi) जांच रिपोर्ट (सीटीआई एमआरआई / यूएसजी / एचपीई सहित) : <input type="checkbox"/>
(vi) अस्पताल से छुट्टी का संक्षिप्त ब्योरा : <input type="checkbox"/>	(xii) डाक्टर का नुस्खा : <input type="checkbox"/>
(xvi) अन्य <input type="checkbox"/> _____	

खंड च – संलग्न बिलों का ब्योरा

क्रम सं	बिल संख्या	तारीख	जारीकर्ता	हेतु	राशि (आईएनआर)
1		(दिन–माह–वर्ष)		अस्पताल मेन बिल	
2		(दिन–माह–वर्ष)		अस्पताल में भर्ती होने से पहले का बिल :—संख्या	
3		(दिन–माह–वर्ष)		अस्पताल में भर्ती होने के बाद का बिल :—संख्या	
4		(दिन–माह–वर्ष)		दवा बिल	
5		(दिन–माह–वर्ष)			
6		(दिन–माह–वर्ष)			
7		(दिन–माह–वर्ष)			
8		(दिन–माह–वर्ष)			
9		(दिन–माह–वर्ष)			
10		(दिन–माह–वर्ष)			

ज्यादा ब्योरा होने की हालत में, कृपया अलग शीट नक्शी करें

खंड छ – मूल बीमित के बैंक खाते का ब्योरा

क) पैन :

ख) खाता संख्या :

ग) बैंक का नाम और शाखा :

घ) चैक / डीडी देय ब्योरा :

ङ) आईएफएससी कोड :

खंड ज – बीमित द्वारा घोषणा

मैं एतदद्वारा घोषणा करता / करती हूं कि इस दावा फार्म में दी गई सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है। यदि मैंने इस दावे में पूछे गए सवालों के जवाब में कोई फर्जी या असत्य बयान किया है, कोई महत्वपूर्ण बात छुपाई या दबाई है, मेरा प्रतिपूर्ति दावा अधिकार समाप्त मान्य होगा। मैं यह भी सहमति देता हूं कि टीपीए/कंपनी को उस व्यक्ति, जिसके संबंध में यह दावा किया गया है, के इलाज करने वाले अस्पताल / डाक्टर से जरुरी चिकित्सा जानकारी प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करता हूं। मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने इस दावे के प्रयोजन हेतु सभी बिल / रसीदें शामिल की हैं तथा मैं प्री / पोस्ट-हॉस्पीटलाइजेशन के अलावा कोई अनुपूरक दावा पेश नहीं करूंगा।

तारीख : / / (दिन—माह—वर्ष)

बीमित के हस्ताक्षर : _____

सीन : _____

दावा फार्म – भाग के भरने के लिए दिशानिर्देश (बीमित द्वारा भरा जाना है)

डेटा तत्व	वर्णन	फार्मेट
खंड क – मूल बीमित का व्योरा		
क) पालिसी नं.	पालिसी नंबर प्रविष्ट करें	जैसाकि बीमा कंपनी द्वारा आवंटित किया गया है
ख) क्र.सं./प्रमाणपत्र सं.	सामाजिक बीमा नंबर या सामाजिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम की प्रमाणपत्र संख्या प्रविष्ट करें	जैसाकि आर्गनाइजेशन द्वारा आवंटित किया गया है
ग) कंपनी टीपीए आईडी सं.	टीपीए आईडी नंबर प्रविष्ट करें	लाइसेन्स नंबर जैसाकि आईआरडीए द्वारा आवंटित और टीपीए दस्तावजों में मुद्रित किया गया है
घ) नाम	पालिसीधारक का पूरा नाम प्रविष्ट करें	उपनाम, प्रथम नाम, मध्य नाम
ङ) पता	पत्रव्यवहार का पूरा पता प्रविष्ट करें	गली, शहर तथा पिन कोड शामिल करें
खंड ख – बीमा इतिहास का व्योरा		
क) वर्तमान में किसी अन्य मेडिकलेम/स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर्ड	बताएं कि क्या वर्तमान में किसी अन्य मेडिकलेम/स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर्ड	हां या नहीं पर टिक करें
ख) बिना ब्रेक पहला बीमा प्रारंभ होने की तारीख	पहले बीमा के शुरू होने की तारीख दर्ज करें	दिन–माह–वर्ष प्रारूप प्रयोग करें
ग) कंपनी का नाम	बीमा कंपनी का पूरा नाम दर्ज करें	आर्गनाइजेशन का पूरा नाम
पालिसी नंबर	पालिस नंबर दर्ज करें	जैसाकि बीमा कंपनी द्वारा आवंटित किया गया है
बीमित रकम	पालिसी के अनुसार कुल बीमित रकम दर्ज करें	रूपये में
घ) क्या यह करार शुरू होने से पिछले चार वर्ष में आप कभी अस्पताल में भर्ती रहे हैं?	बताएं कि क्या पिछले चार वर्ष में कभी अस्पताल में भर्ती हुए?	हां या नहीं पर टिक करें
तारीख	अस्पताल में भर्ती होने की तारीख	माह–वर्ष प्रारूप प्रयोग करें
निदान	निदान का व्योरा दर्ज करें	खुला पाठ
ङ) पहले किसी अन्य मेडिकलेम/स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर्ड	बताएं कि क्या पहले किसी अन्य मेडिकलेम/स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर्ड	हां या नहीं पर टिक करें
च) कंपनी का नाम	बीमा कंपनी का पूरा नाम दर्ज करें	आर्गनाइजेशन का पूरा नाम
खंड ग – अस्पताल में भर्ती किए गए व्यक्ति का व्योरा		
क) नाम	रोगी का पूरा नाम दर्ज करें	उपनाम, प्रथम नाम, मध्य नाम
ख) लिंग	रोगी का लिंग दर्ज करें	पुरुष या महिला टिक करें
ग) आयु	रोगी की आयु दर्ज करें	वर्ष और माह की संख्या
घ) जन्म तिथि	रोगी की जन्मतिथि दर्ज करें	दिन–माह–वर्ष प्रारूप प्रयोग करें
ङ) मूल बीमाधारक से संबंध	रोगी का पालिसीधारक के साथ संबंध	सही विकल्प पर टिक करें। यदि अन्य, स्पष्ट करें
च) व्यवसाय	रोगी का व्यवसाय दर्ज करें	सही विकल्प पर टिक करें। यदि अन्य, स्पष्ट करें
छ) पता	पूरा डाक पता दर्ज करें	गली, शहर तथा पिन कोड शामिल करें
ज) लैंडलाइन	रोगी का फोन नंबर दर्ज करें	फोन नंबर एसटीडी कोड सहित शामिल करें
झ) ई-मेल आईडी	रोगी का ई-मेल पता दर्ज करें	पूरा ई-मेल पता
खंड घ – अस्पताल में रहने का व्योरा		
क) अस्पताल का नाम जहां भर्ती किया गया	अस्पताल का नाम दर्ज करें	अस्पताल का पूरा नाम
ख) भर्ती करने का संवर्ग	भर्ती करने का संवर्ग बताएं	सही विकल्प पर टिक करें
ग) भर्ती का कारण	अस्पताल में भर्ती का कारण बताएं	सही विकल्प पर टिक करें
घ) चोट की तारीख/बीमारी पता लगने की तारीख/प्रसव की तारीख	संबद्ध तारीख दर्ज करें	दिन–माह–वर्ष प्रारूप प्रयोग करें
ङ) भर्ती की तारीख	भर्ती की तारीख दर्ज करें	दिन–माह–वर्ष प्रारूप प्रयोग करें
च) समय	भर्ती का समय दर्ज करें	घंटे–मिनट प्रारूप प्रयोग करें
छ) छुट्टी की तारीख	छुट्टी की तारीख दर्ज करें	दिन–माह–वर्ष प्रारूप प्रयोग करें
ज) समय	छुट्टी का समय दर्ज करें	घंटे–मिनट प्रारूप प्रयोग करें
झ) यदि चोट, कारण बताएं	चोट का कारण बताएं	सही विकल्प पर टिक करें
यदि चिकित्सा कानूनी मामला	बताएं कि क्या चोट चिकित्सा कानून है	हां या नहीं पर टिक करें
पुलिस में रिपोर्ट की गई	क्या पुलिस में रिपोर्ट की गई	हां या नहीं पर टिक करें
एमएलसी रिपोर्ट एवं पुलिस एफआईआर नथी	क्या एमएलसी रिपोर्ट एवं पुलिस एफआईआर नथी की गई	हां या नहीं पर टिक करें
ज) चिकित्सा पद्धति	रोगी के इलाज में अपनाई गई चिकित्सा पद्धति दर्ज करें	खुला पाठ
खंड झ – दावे का व्योरा		
के लिए किया गया दावा	वह घटना चुनें जिसके लिए दावा किया गया है	हां या नहीं पर टिक करें
क) उपचार व्यय का व्योरा	उपचार व्यय के रूप में दावा की गई राशि दर्ज करें	रूपयों में (ऐसे दर्ज नहीं करें)
ख) घर पर इलाज हेतु दावा	बताएं कि क्या घर पर इलाज के लिए दावा किया गया है	हां या नहीं पर टिक करें
ग) दावा की गई एकमुश्त राशि/कैश लाभ का व्योरा	दावा की गई एकमुश्त राशि/कैश लाभ का व्योरा	रूपयों में (ऐसे दर्ज नहीं करें)
घ) प्रस्तुत किए गए दावा दस्तावेज – जांच सूची	बताएं कि कौन से समर्थन दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं	सही विकल्प पर टिक करें
खंड झ – संलग्न बिलों का व्योरा		
बताएं कि कौन से बिल प्रस्तुत किए गए हैं, रूपए में राशि सहित		

डेटा त्रै	वर्णन	फार्मेट
खंड ग – मूल वीमित व्यक्ति के बैंक खाते का व्योरा		
क) पैन	स्थायी खाता संख्या दर्ज करें	जैसाकि आयकर विभाग द्वारा आवंटित किया गया है
ख) खाता संख्या	बैंक खाता संख्या दर्ज करें	जैसाकि बैंक द्वारा आवंटित किया गया है
ग) बैंक नाम और शाखा	बैंक का नाम और शाखा सहित दर्ज करें	बैंक का पूरा नाम
घ) चैक/डीडी देय का व्योरा	चैक/डीडी के लाभार्थी का नाम दर्ज करें जिसके नाम बनाया जाना है	व्यक्ति/आर्गनाइजेशन का पूरा नाम
ङ) आईएफएससी कोड	बैंक शाखा का आईएफएससी कोड दर्ज करें	बैंक शाखा का पूरा आईएफएससी कोड
खंड ज – वीमित द्वारा घोषणा		
घोषणा ध्यान से पढ़ें तथा तारीख (दिन माह वर्ष प्रारूप में), स्थान (खुला पाठ) लिखकर हस्ताक्षर करें		

दावा फार्म – “ग्रुप केयर”

भाग ख

1. अस्पताल द्वारा भरा जाना है।
 2. यह कार्म जारी करने का अर्थ देयता स्वीकार करना नहीं है।
 3. कृपया भाग क के स्थान पर मूल पूर्व-प्राधिकरण अनुरोध शामिल करें।
 4. स्पष्ट अक्षरों में भरें।

भाग क – अस्पताल का ब्योरा

क) अस्पताल का नाम	:																
ख) अस्पताल आईडी	:																
ग) अस्पताल का प्रकार	:	<input type="checkbox"/> नेटवर्क	<input type="checkbox"/> गैर - नेटवर्क (यदि गैर-नेटवर्क खंड ड भरें)														
घ) इलाज करने वाले डाक्टर का नाम	:							(उपनाम)			(प्रथम नाम)			(मध्य नाम)			
ङ) योग्यता	:																
च) रजिस्ट्रेशन नंबर राज्य के कोड सहित:	:																
छ) संपर्क नंबर	:																

खंड ख – भर्ती किए गए रोगी का व्योरा

क) रोगी का नाम :	<input type="text"/>	(उपनाम)	<input type="text"/>	(प्रथम नाम)	<input type="text"/>	(मध्य नाम)									
ख) आईपी रजिस्ट्रेशन सं. :	<input type="text"/>														
ग) लिंग :	<input type="checkbox"/>	पुरुष	<input type="checkbox"/>	महिला	घ) आयु:	<input type="text"/> <input type="text"/>	/	<input type="text"/> <input type="text"/>	(वर्ष-माह)	ड) जन्म तिथि:	<input type="text"/> <input type="text"/>	/	<input type="text"/> <input type="text"/>	/	<input type="text"/> <input type="text"/>
च) भर्ती की तारीख :	<input type="text"/> <input type="text"/>	/	<input type="text"/> <input type="text"/>	/	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(दिन-माह-वर्ष)	छ) भर्ती का समय :	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	(वर्ष-माह)					
ज) छुट्टी की तारीख :	<input type="text"/> <input type="text"/>	/	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	/	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(दिन-माह-वर्ष)	झ) छुट्टी का समय :	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	(वर्ष-माह)					
झ) भर्ती का प्रकार :	<input type="checkbox"/>	आपातस्थिति	<input type="checkbox"/>	योजना	<input type="checkbox"/>	दिन के समय देखभाल	<input type="checkbox"/>	प्रसव							
ट) यदि प्रसव															
(i) प्रसव की तारीख :	<input type="text"/> <input type="text"/>	/	<input type="text"/> <input type="text"/>	/	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(दिन-माह-वर्ष)	(ii) गर्भकाल स्थिति :								
ठ) छुट्टी के समय स्थिति :	<input type="checkbox"/>	घर के लिए छुट्टी	<input type="checkbox"/>	दूसरे अस्पताल के लिए छुट्टी	<input type="checkbox"/>	मृत्यु									
ड) कल दावा राशि :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>														

खंड ग – निदान का व्योरा (मूल)

क) (i) मूल निदान	: आईसीडी 10 कोड :	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					वर्णन : _____
(ii) अतिरिक्त निदान	: आईसीडी 10 कोड :	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					वर्णन : _____
(iii) सह – विकार	: आईसीडी 10 कोड :	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					वर्णन : _____
(iv) सह – विकार	: आईसीडी 10 कोड :	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					वर्णन : _____
ख) (i) प्रक्रिया 1	: आईसीडी 10 कोड :	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					वर्णन : _____
(ii) प्रक्रिया 2	: आईसीडी 10 कोड :	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					वर्णन : _____
(iii) प्रक्रिया 3	: आईसीडी 10 कोड :	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					वर्णन : _____
(iv) प्रक्रिया का विवरण :							

ग) वर्तमान बीमारी पीईडी की जटिलता है : हां नहीं

यदि हां, व्योरा दें :
.....

घ) पूर्व—प्राधिकार प्राप्त : हाँ नहीं

ड) पूर्व-प्राधिकार संख्या :

च) यदि नेटवर्क अस्पताल द्वारा पूर्व-प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया, कारण बताएँ: _____

छ) चोट के कारण भर्ती : हां नहीं

(i) यदि हाँ, कारण बताएं	खुद मारी गई चोट	सङ्कर दर्शनना	पदार्थ दुर्घटना / मदिरापान
-------------------------	-----------------	---------------	----------------------------

(ii) यदि पार्थक दुरुस्पयोग / मदिरापान के कारण चोट लगी है तब निम्न स्थापित करने हेतु की गई जांच : हां नहीं (यदि हां, रिपोर्ट नव्हते करें)

(iii) यदि चिकित्सा कानूनी मामला : हाँ नहीं

(iv) पुलिस में रिपोर्ट की गई : हां नहीं

(v) एफआईआर नंबर : _____

(vi) यदि पुलिस में रिपोर्ट नहीं की गई, कारण बताएँ : _____

खंड घ – प्रस्तुत दावा दस्तावेज – जांच सूची

(i) हरस्ताक्षरयुक्त दावा फार्म : (ix) जांच रिपोर्ट :

(ii) मूल पूर्व-प्राधिकार अनुरोध : (x) सीटी/एमआरआई/यूएसजी/एचपीई जांच रिपोर्ट :

(iii) पूर्व-प्राधिकार मंजूरी पत्र की प्रति : (xi) जांच हेतु डाक्टर की संदर्भ पर्याप्त :

(iv) रोगी के फोटो आईकार्ड की प्रति अस्पताल द्वारा सत्यापित : (xii) ईसीजी :

(v) अस्पताल से छुट्टी का संक्षिप्त व्योरा : (xiii) फार्मसी बिल :

(vi) आपरशन ध्येटर नाट्स (xiv) एमएलसी रिपोर्ट एवं पुलिस एफआईआर

(vii) अस्पताल का मन बिल : (xv) अस्पताल से मूल मृत्यु साराश, जहा लागू हा :

(viii) अस्पताल बिल व्यारा : (xvi) काइ अन्य, कृपया स्पष्ट कर :

खड़ ड - गेर-नेटवक के अस्पताल के मामले में आतिरिक्त विवरण (केवल गेर-नेटवक के अस्पताल के मामले में भरा जाना है)

क) अस्पताल का पता : _____

पिन कोडः

ड) अंतः रोगी बेड्स की संख्या:

For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Hwang at (319) 356-4000 or email at mhwang@uiowa.edu.

खड च – अस्पताल द्वारा घोषणा

हम एतदद्वारा धोषणा करते हैं कि इस दावा फारम में दी गई सूचना हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है। यादे हमने कोई फज़ाया या असत्य बयान किया है, कोई महत्वपूर्ण बात छुपाई या दबाई है, इस दावे के तहत हमारे दावे का अधिकार समाप्त मान्य होगा।

तारीख : / / (दिन-माह-वर्ष)

अस्पताल अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर : _____

सीन : _____

दावा फार्म – भाग ख भरने के लिए दिशानिर्देश (अस्पताल द्वारा भरा जाना है)

डेटा तब	वर्णन	फार्मेंट
भाग क – अस्पताल का ब्योरा		
क) अस्पताल का नाम	अस्पताल का नाम दर्ज करें	अस्पताल का पूरा नाम
ख) अस्पताल की आईडी	अस्पताल की आईडी संख्या दर्ज करें	जैसाकि टीपीए द्वारा आवंटित किया गया है
ग) अस्पताल का प्रकार	स्पष्ट करें कि अस्पताल नेटवर्क में है या गैर-नेटवर्क है	सही विकल्प पर टिक करें
घ) इलाज करने वाले डाक्टर का नाम	इलाज करने वाले डाक्टर का नाम	डाक्टर का पूरा नाम
ङ) योग्यता	इलाज करने वाले डाक्टर की योग्यता दर्ज करें	शैक्षिक योग्यता का संक्षिप्त नाम
च) रजिस्ट्रेशन नंबर राज्य के कोड सहित	डाक्टर का रजि. नंबर राज्य के कोड सहित दर्ज करें	जैसाकि चिकित्सा परिषद द्वारा आवंटित किया गया है
छ) संपर्क नंबर	डाक्टर का फोन नंबर दर्ज करें खंड ख – भर्ती किए गए रोगी का विवरण	फोन नंबर एसटीडी कोड सहित शामिल करें
क) रोगी का नाम	अस्पताल का नाम दर्ज करें	अस्पताल का पूरा नाम
ख) आईपी रजि. नंबर	बीमा प्रदाता का रजि. नंबर दर्ज करें	जैसाकि बीमा प्रदाता द्वारा आवंटित किया गया है
ग) लिंग	रोगी का लिंग दर्ज करें	पुरुष या महिला टिक करें
घ) आयु	रोगी की आयु दर्ज करें	वर्ष और माह की संख्या
ङ) जन्म तिथि	रोगी की जन्मतिथि दर्ज करें	दिन-माह-वर्ष प्रारूप प्रयोग करें
च) भर्ती की तारीख	भर्ती की तारीख दर्ज करें	दिन-माह-वर्ष प्रारूप प्रयोग करें
छ) समय	भर्ती का समय दर्ज करें	घंटे-मिनट प्रारूप प्रयोग करें
झ) छुट्टी की तारीख	छुट्टी की तारीख दर्ज करें	दिन-माह-वर्ष प्रारूप प्रयोग करें
ज) समय	छुट्टी का समय दर्ज करें	घंटे-मिनट प्रारूप प्रयोग करें
ट) भर्ती का प्रकार	रोगी की भर्ती का प्रकार स्पष्ट करें	सही विकल्प पर टिक करें
ठ) यदि प्रसव		
प्रसव की तिथि	प्रसव की स्थिति में प्रसव की तारीख दर्ज करें	दिन-माह-वर्ष प्रारूप प्रयोग करें
गर्भकाल स्थिति	प्रसव की स्थिति में गर्भकाल की स्थिति दर्ज करें	मानक प्रारूप का उपयोग करें
झ) छुट्टी के समय स्थिति	छुट्टी के समय रोगी की स्थिति दर्ज करें	सही विकल्प पर टिक करें
ঠ) कुल दावित राशि	कुल दावित राशि इंगित करें	रूपए में (ऐसे दर्ज नहीं करें)
खंड ग – निदान का ब्योरा (प्राथमिक)		
क) सीडी 10 कोड		
मूल निदान	आईसीडी 10 कोड तथा मूल निदान का वर्णन दर्ज करें	मानक प्रारूप और खुला पाठ
अतिरिक्त निदान	आईसीडी 10 कोड तथा अतिरिक्त निदान का वर्णन दर्ज करें	मानक प्रारूप और खुला पाठ
सह-विकार	आईसीडी 10 कोड तथा सह-विकार का वर्णन दर्ज करें	मानक प्रारूप और खुला पाठ
খ) सीडी 10 पीसीएस		
प्रक्रिया 1	आईसीडी 10 कोड तथा पहली प्रक्रिया का वर्णन दर्ज करें	मानक प्रारूप और खुला पाठ
प्रक्रिया 2	आईसीडी 10 कोड तथा दूसरी प्रक्रिया का वर्णन दर्ज करें	मानक प्रारूप और खुला पाठ
प्रक्रिया 3	आईसीडी 10 कोड तथा तीसरी प्रक्रिया का वर्णन दर्ज करें	मानक प्रारूप और खुला पाठ
प्रक्रिया का विवरण	प्रक्रिया का विवरण दर्ज करें	खुला पाठ
গ) পীইড়ী	स्पष्ट करें कि क्या वर्तमान रोग पीইড়ী का संयोजन है	হां या नहीं पर टिक करें
যदि हां, विवरण स्पष्ट करें	পীইড়ী का ब्योरा दर्ज करें	खुला पाठ
ঘ) পূর্ব-প্রাধিকার প্রাপ্ত	বताएं कि क्या পূর্ব-প্রাধিকার প্রাপ্ত কিয়া গয়া	হাং যা নহীঁ পর টিক করে
ঝ) পূর্ব-প্রাধিকার সংখ্যা	পূর্ব-প্রাধিকার সংখ্যা दर্জ করে	জैसाकि टीपीए द्वारा आवंटित किया गया है
চ) যদি নেটবর্ক অস্পতাল দ্বারা পূর্ব-প্রাধিকার প্রাপ্ত নহীঁ কিয়া গয়া, কারণ বতাএঁ	পূর্ব-প্রাধিকার প্রাপ্ত নহীঁ করনे का कारण दर्ज करें	খুলা পাঠ
ছ) চোট কे কারণ ভর্তী	বতাএঁ কি ক্যা চোট কে কারণ অস্পতাল মেঁ ভর্তী হুए হৈ	হাং যা নহীঁ পর টিক করে
কারণ	চোট কা কারণ বতাএঁ	সহी विकल्प टिक करें
যদি পদার্থ দুরুपযোগ/মদিরাপান কে কারণ চোট লগী হৈ তব নিম্ন স্থাপিত করনে হেতু কী গাই জাঁচ	বতাএঁ কি ক্যা জাঁচ কী গাই থী	হাং যা নহীঁ পর টিক করে
যদি চিকিৎসা কানূনী মামলা	বতাএঁ কি ক্যা জাঁচ চিকিৎসা কানূনী হৈ	হাং যা নহীঁ পর টিক করে
পুলিস মেঁ রিপোর্ট	বতাএঁ কি ক্যা পুলিস মেঁ রিপোর্ট কী গাই থী	হাং যা নহীঁ পর টিক করে
এফআইআর সং.	এফআইআর নংবর দর্জ করে	জৈসা কি পুলিস অধিকারিয়ে দ্বারা জারী কিয়া গয়া হৈ
যদি পুলিস মেঁ রিপোর্ট নহীঁ কী গাই, কারণ বতাএঁ :	পুলিস মেঁ রিপোর্ট নহীঁ করনে কা কারণ দর্জ করে	খুলা পাঠ
খঠ ঘ – প্রস্তুত দা঵া দস্তা঵েজ – জাঁচ সূচী		
স्पष्ट করেं कि कौन से समर्थन दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं		

डेटा तत्व	वर्णन	फार्मेट
खंड भ – गैर-नेटवर्क अस्पताल के मामले में अतिरिक्त विवरण		
क) पता	पूरा डाक पता दर्ज करें	गली, शहर तथा पिन कोड शामिल करें
ख) संपर्क नं.	अस्पताल का फोन नंबर दर्ज करें	फोन नंबर तथा एसटीडी कोड शामिल करें
ग) राज्य कोड सहित रजिस्ट्रेशन सं	डाक्टर का रजि. नंबर राज्य के कोड सहित दर्ज करें	जैसाकि भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा आवंटित किया गया है
घ) अस्पताल पैन	स्थायी खाता क्रमांक दर्ज करें	जैसाकि आयकर विभाग द्वारा आवंटित किया गया है
ङ) अंतरोगी बेड्स की संख्या	अंतरोगी बेड्स की संख्या दर्ज करें	अंक
च) अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं	अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं दर्ज करें	सही विकल्प पर टिक करें। यदि अन्य हैं, स्पष्ट करें
खंड च – अस्पताल द्वारा घोषणा		
घोषणा ध्यान से पढ़ें तथा तारीख (दिन माह वर्ष प्रारूप में), स्थान (खुला पाठ) लिखकर हस्ताक्षर करें तथा मोहर लगाएं		

सहमति पत्र

तारीख

सेवा में,
चिकित्सा अधीक्षक

प्रिय श्रीमान,

सं. : मैसर्स रेलीगियर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और इसके एजेन्टों के पक्ष में प्राधिकार

मैं आपके अस्पताल में

से _____ तक _____ अंतर्गत सं. _____ के तहत उपचाराधीन रहा हूँ

मैं एतदद्वारा मैसर्स रेलीगियर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा/अथवा इसके अधिकृत प्रतिनिधियों को आपसे अथवा उपरोक्त बीमारी के संबंध में मेरे इलाज से जुड़े डाक्टरों से कोई भी चिकित्सा जानकारी/रिकार्ड मांगने हेतु प्राधिकृत करता हूँ।

उनके द्वारा किसी भी संबंध में ऐसी सूचना/रिकार्ड मांगे जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

धन्यवाद,
भवदीय

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)
बीमित के हस्ताक्षर —